



The BSE Ltd.
BSE's Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001

National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza"
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai- 400 051

SRF/SEC/ 2024

24th July,2024

Dear Sir,

Sub: Newspaper Clippings of unaudited financial Results for quarter ended June 30, 2024 - SRF Limited

In Compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached herewith copies of unaudited results published in Business Standard (English) and Jansatta (Hindi) newspaper. Copies of said advertisement are also available on the website of the Company at www.srf.com

Request to kindly take this intimation on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **SRF LIMITED**

Rajat Lakhnopal
Sr. VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

Encl : A/a

SRF LIMITED
Block-C Sector 45
Gurugram 122 003
Haryana India
Tel: +91-124—4354400
Fax: +91-124—4354500
E-mail: info@srf.com
Website: www.srf.com
Regd. Office:
Unit No. 236 & 237, 2nd Floor
DLF Galleria, Mayur Place
Noida Link Road
Mayur Vihar Phase 1 Extension
Delhi 110091

PUBLIC NOTICE

The General Public is hereby given notice that my client 'The Developer', is intending to purchase the property described in the schedule hereunder from its owner (1) Mahadev Jaku Gawand (2) Atamaram Mahadev Gawand And (3) Purshottam Mahadev Gawand, all residing at Room No. 1, Gawand Chawl, Bhattipada Road, Bhandup (West), Mumbai - 400 078. The said owner has represented to my client that they are the owners and title holders of the said scheduled property having clear and marketable title free from all encumbrances. Any person having any right, title or interest of claim of any nature whatsoever in the said schedule property, is hereby required to intimate the undersigned, in writing its objections with documentary proof thereby substantiating their claim and/or objections, within 15 days from the date of issue of this notice, failing which my client shall purchase the scheduled property from the owners. If no claims are received within the period of 15 days from the date of issue of this notice, it shall be assumed that claims if any, are waived and/or abandoned, and no claims shall be entertained thereafter.

SCHEDULE OF THE PROPERTY

ALL THAT piece or parcel of land or ground lying and being at Bhandup now in Greater Bombay being Survey No. 136 (Part) having corresponding C.T.S. No. 148, 148/1 to 148/22 and having area admeasuring on or about 1393.32 sq yards equal to 1165 sq. meters together with various structures standing thereon occupied by the respective tenants/occupants thereon and being at Village Bhandup, Taluka Kurfa of Mumbai Suburban District and situated at Gawan Compound, Tambhi pada, Bhandup (West), Mumbai - 400 078.

On or towards the East : by a Road CTS No. 146 (p) & 1277
On or towards the West : by a Road Access Road
On or towards the North : by a Road CTS No. 143 & 146 (p)
On or towards the South: C.T.S. No. 149 Sd/-

Sanskar Marathe (Advocate)
57, Ali Chambers, 4th Floor, Tamarind Lane, Fort, Mumbai-400 023.
Mobile No: 9820320776;
Email ID: marathesanskar@gmail.com;

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that my client The Greater Bombay Co-operative Bank Ltd., Mumbai, has approached me to publish this public notice for missing of Original Share Certificate and Original Agreements for Sale in respect of Flat No. 8 (now renumbered as No. 103), 1st Floor, area admeasuring 190 sq. ft. Carpet, Navnath Prasad CHS Ltd., constructed on the land bearing C.T.S. Number 82 Tika No. 15, C.T.S. Number 37/B Tika No. 16 and Survey Number 6/1, 5/1, situated in the village - Naupada, Taluka & District Thane, owned by its customer Mr. Tushar Subhashchandra Shiloti & Mrs. Kanchan Subhashchandra Shiloti, which are mentioned below:-

1) Agreement for Sale dated 13/06/2002 Between M/s. Manas Developers and Mrs. Alka Arvind Joshi being registration No. Thane 1- 3882/2002 along with registration receipt.
2) Agreement for Sale dated 31/07/2003 Between Mrs. Alka Arvind Joshi And Shri. Amol Subhash Salvi & Shri. Subhash Shankar Salvi being registration no. Thane 1-5064/2003 along with registration receipt.
3) Agreement for Sale dated 07/02/2006 Between Shri. Amol Subhash Salvi & Shri. Subhash Shankar Salvi And Mr. Tushar Subhashchandra Shiloti & Mrs. Kanchan Subhashchandra Shiloti being registration no. Thane 1-726/2006 along with registration receipt.
4) Share Certificate issued by Navnath Prasad CHS Ltd.

Any person/s who found the said original Agreements and / or share certificate is/are requested to contact and hand over the same to the undersigned at B/106, 1st Floor, Sayeed Manzil CHS Ltd., Pandit Dindayal Nagar, opp. Bassein Catholic Bank Ltd., Manickpur, Vasai (W), Dist. Palghar - 401202 within 14 days from the date hereof, otherwise it will be presumed that there do not exist any claims, and the same, if any, will be considered as waived or abandoned.

All persons are hereby further informed and requested to take notice of the aforesaid and are hereby warned not to create any third party rights or obtain a loan or enter into any kind of deal on the basis of aforesaid document or property. Any person's doing so will do so at his/her own risk as to cost and consequences and such acts/transactions shall not be binding upon my client/its customer. Vasai, Dated This 24th Day of July, 2024.

Sd/-
David S. Dabre
Advocate High Court, Bombay

PUBLIC NOTICE

All persons are hereby informed that my client, MR. PARAS VINODCHANDRA KOTHARI, having an office at B-402, Kanara Business Centre, Link Rd. Chakrapar East, Mumbai 400075, is a creditor of 1) Mr. Omprakash Keshardo Singhania, 2) Sunil Omprakash Singhania, 3) Siddhant Sunil Singhania, and 4) Shashank Sunil Singhania. That 1) Mr. Omprakash Keshardo Singhania, 2) Sunil Omprakash Singhania, 3) Siddhant Sunil Singhania, and 4) Shashank Sunil Singhania own several properties i.e. 1) Flat No. 39, Vishnu Mahal, CHS Ltd, 6th Floor, 2100 Chauras Meter, Mahabaleswar, Satara, Churchgate, Mumbai 400020, 2) 1 Flat at Dombivli and 3) land at Bhu Kramak 219A, 22100 Chauras Meter, Mahabaleswar, Satara (hereinafter referred to as "The Said Property"). Mr. Omprakash Keshardo Singhania issued a necessary writing dated 27/04/2024, undertaking to clear/pay the dues of my client, by transferring or selling the said property. My client is the creditors of 1) Mr. Omprakash Keshardo Singhania, 2) Sunil Omprakash Singhania, 3) Siddhant Sunil Singhania, and 4) Shashank Sunil Singhania therefore they are liable to transfer the said property to clear the dues as per the writing dated 27/04/2024. However, my client has come to know that Mr. Omprakash Keshardo Singhania, 2) Sunil Omprakash Singhania, 3) Siddhant Sunil Singhania, and 4) Shashank Sunil Singhania, now intends to create third-party rights/ or transfer his rights and ownership of the Said Property in favor of a third person without the knowledge, consent, or permission of my client, despite the undertaking given in writing dated 27/04/2024.

My client has every right, title, interest, and claim to the Said Property by virtue of the writing and video dated 27/04/2024 issued by Mr. Omprakash Keshardo Singhania. There is every possibility that 1) Mr. Omprakash Keshardo Singhania, 2) Sunil Omprakash Singhania, 3) Siddhant Sunil Singhania, and 4) Shashank Sunil Singhania, by misrepresenting to the public at large and intending to create third-party rights, may try to transfer the Said Property in the name of a respective purchaser/s by taking advantage of the document in respect of the Said Property standing in his name and would create third-party rights in respect of the Said Property. In that event, my client would suffer valuable irreparable loss, harm, and prejudice.

Therefore, my client informs the public at large not to enter into any kind of transaction with 1) Mr. Omprakash Keshardo Singhania, 2) Sunil Omprakash Singhania, 3) Siddhant Sunil Singhania, and 4) Shashank Sunil Singhania in respect of the Said Property. If anyone enters into any transaction with 1) Mr. Omprakash Keshardo Singhania, 2) Sunil Omprakash Singhania, 3) Siddhant Sunil Singhania, and 4) Shashank Sunil Singhania, the same shall not bind upon my client, and the said person shall do so at his own risk, cost, and consequences.

Date: 24/07/2024 Place: Mumbai
Sd/-
SATYAM R. DUBEY
Advocate High Court
201/B, Shree Hari Enclave CHS Ltd., Mulund-West, Mumbai-400080

PUBLIC NOTICE

The General Public is hereby given notice that my client 'The Developer', is intending to purchase the property described in the schedule hereunder from its owner Shri Dilipshin Shoorji Vallabhdas, Smt. Jayalaxmi Gopali Viji Ganatra (since deceased) her Administrators Shri Chetan Ramniklal Shah and Shri Raja Babulal Majethia, Smt. Danyanti Viji alias Smita Shivi Thakkar (since deceased) her legal heir Smt. Shrushti Shailesh Buch, Shri Vasanikumar Purushottam (Thakkar) and Shri Raja Babulal Majethia, through their Constituted Attorneys M/s. Matrix Waste Management Private Limited. The said owner has represented to my client that they are the owners and title holders of the said scheduled property having clear and marketable title free from all encumbrances save and except the occupation and possession of (1) Mahadev Jaku Gawand (2) Purshottam Mahadev Gawand and (3) Atamaram Mahadev Gawand.

Any person having any right, title or interest of claim of any nature whatsoever in the said schedule property, is hereby required to intimate the undersigned, in writing its objections with documentary proof thereby substantiating their claim and/or objections, within 15 days from the date of issue of this notice, failing which my client shall purchase the scheduled property from the owners. If no claims are received within the period of 15 days from the date of issue of this notice, it shall be assumed that claims if any, are waived and/or abandoned, and no claims shall be entertained thereafter.

SCHEDULE OF THE PROPERTY

All that piece and parcel of land or ground hereditaments premises bearing Survey No. 136 (Part), and having corresponding CTS Nos. 149, 149/1 to 149/28 admeasuring on or about 1954 sq. yards equivalent to 1633.9 sq. meters as per Property Registered Extract together with the various structures standing thereon, occupied by the respective tenants/occupants thereto and being at Village Bhandup, Taluka Kurfa of Mumbai Suburban District and being situated at Gawan Compound, Bhattipada, Bhandup (West), Mumbai - 400 078 and lying within the limits of 'S' Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai and bounded as follows:-

On or towards the East : C.T.S. Nos. 148, 148/1 to 22;
On or towards the West : C.T.S. Nos. 150, 151 & 152;
On or towards the North : C.T.S. Nos. 153, 156/9 & 10;

On or towards the South: Road Sd/- Sanskar Marathe (Advocate)
57, Ali Chambers, 4th Floor, Tamarind Lane, Fort, Mumbai-400 023.
Mobile No: 9820320776;
Email ID: marathesanskar@gmail.com;

IFB AGRO INDUSTRIES LIMITED
CIN : L01409WB1982PLC034590
Regd. Office : Plot No-IND 5, Sector-1, East Kolkata Township, Kolkata-700107;
Ph : 033-39849675
Email : complianceifbagro@ifbglobal.com;
Website : www.ifbagro.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT
(only through e-voting)

Members are hereby informed that pursuant to and in compliance with the provisions of Section 110 read with Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act"), Rule 22 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and any other applicable provisions of the Act, relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Secretarial Standards on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"), and other applicable laws and regulations, as amended from time to time (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), the Company seeks the approval of the Members by way of Postal Ballot through remote e-voting process as specified in the Postal Ballot Notice along with the explanatory statement thereto.

Members are hereby informed that :

- in compliance with the above-mentioned provisions and MCA circulars, the Company has completed dispatch of electronic copies of Postal Ballot Notice ("Notice") dated March 29, 2024, along with Explanatory Statement, on Tuesday, July 23, 2024 through electronic mode to all those Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories as on Friday, July 19, 2024 ("Cut-off date").
- the e-voting period commence on Thursday, July 25, 2024 at 9:00 a.m. (IST);
- the e-voting period ends on Friday, August 23, 2024 at 5:00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled for voting thereafter;
- only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depository Participant(s) as on the Cut-off date i.e. July 19, 2024, are entitled to cast their votes by remote e-voting;
- Detailed instructions for remote e-voting are provided in the notes of the Postal Ballot Notice.
- the Board of Directors of the Company has appointed Mr. S K Patnaik, Practicing Company Secretary having Membership No. FCS 5699 Partner of M/s Patnaik & Patnaik, Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and casting vote through the e-voting system in a fair and transparent manner.
- members who have not received Postal Ballot Notice may write to rtg@cbmsl.com and obtain the same over email or download the same from the website of the Company.
- in case of any queries with respect to voting by electronic means, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022-4886-7000 and 022-2499-7000 or send a request at evoting@nsdl.com.
- Contact Detail for addressing e-voting related queries/ grievances, if any, are Mr. Subhabrata Biswas, President & Compliance Officer, C B Management Services Private Limited, P-22, Bondel Road, Kolkata - 700019, Tel No. : 033 4011 6728/6700/6739.

A copy of this Postal Ballot Notice is also available on the Company's website www.ifbagro.in and on the websites of BSE: www.bseindia.com and NSE: www.nseindia.com on which the Equity Shares of the Company are listed, and on the website of NSDL: www.evoting.nsdl.com.

The results of postal ballot will be announced on or before Monday, April 29, 2024 and shall be placed along with Scrutinizer's Report on the website of the Company at www.ifbagro.in and on the website of NSDL. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges and National Securities Depository Limited ("NSDL").

Place : Kolkata For IFB Agro Industries Limited
Date : 23rd July, 2024 Kuntal Roy
Company Secretary

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that we are investigating the title of 1) Mr. KUNTAL JITENDRA DAVE, 2) Mrs. PAYAL KUNTAL DAVE, and 3) K & Y CONSULTANTS PVT. LTD. who are the owners of residential Flat No. 3802 on 38th Floor in Indiabulls Sky admeasuring about 2003 sq. ft. carpet along with 3 (three) car parking spaces nos. 03 & 04 on the Basement 02 level and 12 on the 7th Floor in the building with a membership of the condominium formed by all the occupants of Indiabulls Sky and the right to use the common amenities of the said 'Indiabulls Sky', ("collectively said Premises") and the said Premises is situated at Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, constructed on property bearing Cadastral Survey No. 882 of Lower Parel Division in G/South Ward, Mumbai within the limits of Registration District and Sub-District of Mumbai City and the said Premises is free from all encumbrances, charge, disputes, claims, lien or mortgage of any nature save and except mortgage of Standard Chartered Bank.

All person/s having any claim/s or right in respect of the aforesaid premises or any part thereof by way of inheritance, share, sale, mortgage, lease, lien, license, gift, possession, exchange, pledge, assignment, guarantee, trust, bequest, tenancy, transfer of title or beneficial interest, sub-tenancy, charge, lis-pendens, maintenance, easement, Court Order/s or encumbrance howsoever or otherwise are hereby called upon to intimate to the undersigned in writing of such claim with supporting copies of all supporting documents within 14 days from the date of publication of this notice, failing which the claims, if any of such persons shall be treated as willfully abandoned, waived & not binding on our clients.

Date: 24.07.2024
Place: Mumbai -sd/-

Mr. ROHIT VASANT SHINDE
Advocate High Court,
c/o Mukesh H. Jain, Office No. 118,
1st Floor, Narayan Udyog Bhavan,
Chivda Galli, Lalbaugh, Mumbai 400012

Markets, Insight Out

Markets, Monday to Saturday

To book your copy,
sms reachbs to **57575** or
email order@bsmail.in

Business Standard
50
Years of Insight

**SRF LIMITED**

Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi - 110091
Tel. No. (Regd. Office): (+91-11) 49482870 | Fax: (+91-11) 49482900 | E-mail: info@srf.com | Website: www.srf.com | CIN - L18101DL1970PLC005197

(Rs. in Crores)

STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

Sl. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		QUARTER ENDED		YEAR ENDED	QUARTER ENDED		YEAR ENDED
		30-Jun-24	30-Jun-23	31-Mar-24	30-Jun-24	30-Jun-23	31-Mar-24
		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	2736.30	2773.72	10786.67	3464.12	3338.38	13138.52
2	Profit for the period before tax	336.30	491.07	1717.88	343.98	485.77	1692.22
3	Net Profit for the period after tax	249.94	365.40	1374.03	252.22	359.29	1335.71
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	285.47	436.39	1465.04	295.06	369.48	1356.84
5	Paid up Equity Share Capital	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	10503.86	9394.62	10216.27	11478.90	10401.24	11181.58
7	Net Worth	10800.28	9691.04	10512.69	11775.32	10697.66	11478.00
8	Security Premium Account	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56
9	Debt Equity Ratio	0.34	0.31	0.35	0.43	0.44	0.44
10	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
	(a) Basic :	8.43	12.33	46.35	8.51	12.12	45.06
	(b) Diluted :	8.43	12.33	46.35	8.51	12.12	45.06
11	Capital Redemption Reserve	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48
12	Debt Service Coverage Ratio	2.07	3.02	3.34	1.82	2.64	2.71
13	Interest Service Coverage Ratio	5.80	7.90	7.35	5.28	6.63	6.11

NOTE:

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual results are available on the website of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company's website (www.srf.com).

For the other line items referred in regulation 52(4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) i.e National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited and can be accessed on the URL www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Place : Gurugram
Date : July 23, 2024

For and on behalf of the Board

Ashish Bharat Ram
Chairman and Managing Director

We always find a better way

Chemicals Business | Packaging Films Business | Technical Textiles Business

Varishtha Property Developers Private Limited

Corporate Identification Number: U45208TG2015PTC101839
Registered Office: Puravankara Projects Limited, Survey No. 8, Opp.Mahindra Satyam, Sideline of Godrej Bldg Kondapura Hyderabad TG 500033, India

Statement of Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2024

Table with 5 columns: Sl. No., Particulars, Quarter ended 30.06.2024 Unaudited, Corresponding Quarter ended 30.06.2023 Unaudited, Previous Year ended 31.03.2024 Audited. Rows include Total Income from Operations, Net Profit, Reserves, and Debt Service Coverage Ratio.

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015.

For and on behalf of the Board of Directors of Varishtha Property Developers Private Limited
Sd/- Name: D S Patil Designation: Director DIN: 01599400

Place: Bengaluru, India Date: July 23, 2024

Form No. INC-26 [Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR NORTHERN REGION In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of BLUEVALUE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED (CIN: U7140DL2012PTC245850) having its registered office at 686A, CHIRAG DELHI DELHI SOUTH DELHI DELHI 110017.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 05th August 2022 to enable the company to change its Registered Office from "686A, CHIRAG DELHI DELHI SOUTH DELHI DELHI 110017" to "7S, PARSANATH ESTATE, OMEGA SECTOR-1, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR UTTAR PRADESH 201301"

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address B-2 wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 Delhi, within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below.

For and on behalf of the Applicant BLUEVALUE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED Sd/- VIPUL KAUSHIK Director DIN: 02596908 Date: 24/07/2024 Place: 686A, CHIRAG DELHI DELHI SOUTH DELHI DELHI 110017

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED Corporate Office: Chola Crest C 54 & 55, Super B - 4, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai-600032, India, Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005.

POSSESSION NOTICE UNDER RULE 8 (1)

WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereinafter called the Act and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rules 3 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indicated in Column [B] below on dates specified in Column [C] to repay the outstanding amount indicated in Column [D] below with interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in particular and the Public in general that the undersigned has taken possession of the properties mortgaged with the Company described in Column [E] herein below on the respective dates mentioned in Column [F] in exercise of the powers conferred on him under Section 13(4) of the Act read with Rule 3 of the Rules made there under.

The borrowers in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in Column [E] below and any such dealings will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited for an amount mentioned in Column [D] along with interest and other charges.

Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redeem the secured asset by payment of the entire outstanding including all costs, charges and expenses before notification of sale.

Table with 6 columns: SL NO, NAME AND ADDRESS OF APPLICANT & LOAN ACCOUNT NUMBER, DATE OF DEMAND NOTICE, OUTSTANDING AMOUNT, DETAILS OF PROPERTY POSSESSED, DATE OF POSSESSION. Row 1: Loan Account Nos. X0HELD00001785259, BIJENDRA @ BIJENDER S/O SHRI BABU LAL (APPLICANT), SAVITA W/O SHRI BIJENDRA @BIJENDER KUMAR (CO APPLICANT).

Date: 24/07/2024 Authorised Officer: Cholamandalam Investment And Finance Company Limited Place: Delhi+NCR

The Jammu & Kashmir Bank Limited IMPAIRED ASSETS PORTFOLIO MANAGEMENT DEPARTMENT Zonal Office (Delhi) Plot No.132-134 Sector 44, Gurgaon (T) 0124-4715800 Email: iapmd.del@jkbmail.com

E-Auction Notice (For sale of immovable property/ies under the SARFAESI Act, 2002) "Appendix, IV-A, Refer Proviso to Rule 8(i)"

Notice is hereby given to the public in general and to the borrowers and guarantors in particular that the below mentioned property mortgaged to secured creditor (Jammu & Kashmir Bank Ltd), the possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditor (Jammu & Kashmir Bank Ltd) under Section 13(4) of the SARFAESI Act, will be sold through E-auction on "AS IS WHERE IS" "AS IS WHAT IS" AND "WHATEVER THERE IS" basis on below mentioned dates, for recovery of amount as mentioned below due to the secured creditor from concerned borrower(s), mortgagor(s) and guarantors. The Reserve Price is mentioned below and earnest money to be deposited is mentioned respectively.

Table with 2 columns: Name & Address of Borrower/Guarantors, Details of Security Charged covered under Auction. Rows include MIS Polo Amusement Park Ltd, C/O Fun 'N' Food Village, old Delhi, Gurugram Road, Kapashera, New Delhi.

Table with 2 columns: Reserve price, EMD Amount, Bid Increment, Outstanding Dues, Name & Number of Contact Person & Branch, Date & time of E-auction, Earnest Money Deposit (EMD) & Other Remittance details by RTGS to Account Number.

Terms & Conditions of E-Auction are as under:

- i. The E-Auction is being held on "AS IS WHERE IS" "AS IS WHAT IS" AND "WHATEVER THERE IS" basis and will be conducted online. The bid document/format containing full details of the property and all the terms and conditions can be had from, and submitted on, the website "http://sarfaesi.auctiontignr.net" (contact person Ram Sharma -9978591888, Contact no. 079-68136880/68136837 Mob.: +91 9265562821/18 email: support@auctiontignr.net).

Date: 22.07.2024, Place: New Delhi Sd/- Authorised Officer, Jammu & Kashmir Bank Ltd Registered Office: Corporate Headquarters M.A Road Srinagar-190001, J&K, India CIN: L65110JK1938SGC000048; T:+91(0)194 2481 930-35; F: +91(0)194 248 1928; E: info@jkbmail.com W: www.jkbank.com

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (formerly Fullerton India Credit Company Limited) Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101,102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.

DEMAND NOTICE UNDER THE PROVISIONS OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ("the Act") AND THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("the Rules")

The undersigned being the authorized officer of SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (formerly Fullerton India Credit Company Limited) (SMFG India Credit) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) of the Act read with the Rule 3, issued Demand Notice(s) under Sec. 13(2) of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is/are avoiding the service of the demand notice(s), therefore the service of notice is being effected by affixation and publication as per Rules. The contents of demand notice(s) are extracted herein below:

Table with 3 columns: Name of the Borrower(s)/ Legal Heir(s), Demand Notice Date, Description of Immovable Property Mortgaged. Rows include APNA DHABA, USHA RANI, RAJAT BHOLA.

The borrower(s) are hereby advised to comply with the demand notice(s) and to pay the demand amount mentioned therein and hereinabove within 60 days from the date of this publication together with applicable interest, additional interest, bounce charges, cost and expenses till the date of realization of payment. The borrower(s) may note that SMFG India Credit is a secured creditor and the loan facility availed by the Borrower(s) is a secured debt against the immovable property/properties being the secured asset(s) mortgaged by the borrower(s).

In the event borrower(s) are failed to discharge their liabilities in full within the stipulated time, SMFG India Credit shall be entitled to exercise all the rights under Section 13(4) of the Act to take possession of the secured asset(s) including but not limited to transfer the same by way of sale or by invoking any other remedy available under the Act and the Rules thereunder and realize payment. SMFG India Credit is also empowered to ATTACH AND/OR SEAL the secured asset(s) before enforcing the right to sale or transfer. Subsequent to the Sale of the secured asset(s), SMFG India Credit also has a right to initiate separate legal proceedings to recover the balance dues, in case the value of the mortgaged properties is insufficient to cover the dues payable to the SMFG India Credit. This remedy is in addition and independent of all the other remedies available to SMFG India Credit under any other law.

The attention of the borrower(s) is invited to Section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets and further to Section 13(13) of the Act, whereby the borrower(s) are restrained/prohibited from disposing of or dealing with the secured asset(s) or transferring by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured asset(s), without prior written consent of SMFG India Credit and non-compliance with the above is an offence punishable under Section 29 of the said Act. The copy of the demand notice is available with the undersigned and the borrower(s) may, if they so desire, can collect the same from the undersigned on any working day during normal office hours.

Place: New Delhi Authorised Officer SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (formerly Fullerton India Credit Company Limited) Date: 24.07.2024

SRF LIMITED Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi - 110091 Tel. No. (Regd. Office): (+91-11) 49482870 | Fax: (+91-11) 49482900 | E-mail: info@srf.com | Website: www.srf.com | CIN - L18101DL1970PLC005197

STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

Table with 7 columns: Sl. No., Particulars, QUARTER ENDED 30-Jun-24, QUARTER ENDED 30-Jun-23, YEAR ENDED 31-Mar-24, CONSOLIDATED QUARTER ENDED 30-Jun-24, CONSOLIDATED QUARTER ENDED 30-Jun-23, YEAR ENDED 31-Mar-24. Rows include Total Income from Operations, Profit for the period before tax, Net Profit, Reserves, and Debt Service Coverage Ratio.

NOTE: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual results are available on the website of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company's website (www.srf.com).

For and on behalf of the Board Ashish Bharat Rao Chairman and Managing Director Place: Gurugram Date: July 23, 2024

We always find a better way Chemicals Business | Packaging Films Business | Technical Textiles Business

Minda Corporation Limited CIN: L74899DL1985PLC020401 Registered Office: A-15, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052 Corporate Office: D-6-11, Sector - 59, Noida - 201301, Uttar Pradesh Telephone No. : +91-0120 - 4442500 Website: www.sparkminda.com, E-mail: investor@mindacorporation.com

NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, August 14, 2024 at 10:00 a.m. (IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulation, 2015 read with General Circular Nos. 20/2020, 10/2022 and 09/2023 dated May 05, 2020, December 28, 2022 and September 25, 2023 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and all other relevant circulars issued from time to time, without physical presence of the Members at a common venue to transact the business as set out in the 39th AGM Notice circulated for convening the AGM.

The Company has sent Notice of the AGM and Annual Report containing Financial Statements for the year ended March 31, 2024 and the Reports of the Auditors and Directors along with Report on Corporate Governance and Business Responsibility through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) ("Depository"). Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2023-24 will also be available on the Company's website at www.sparkminda.com at the link https://sparkminda.com/Uploads/prospectus/1619pdcdfile_Noticeof39thAGMtoBeheldonAugust14,2024.pdf and https://sparkminda.com/Uploads/prospectus/1619pdcdfile_AnnualReports2023-24.pdf respectively and the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set out in the AGM Notice dated May 22, 2024. The Company has availed the remote e-voting services as provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Biswajit Ghosh (FCS-8750, CP No.-8239), Partner failing him Mr. Pramod SM (FCS-7834, CP No-13784), Partner (BMP & Co. LLP, Company Secretaries) as Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner. The Notice has been sent to all the Members, whose names appeared in the Register of Member/list of beneficial owners received from NSDL & CDSL as on Friday, July 12, 2024.

The remote e-voting period commences on Sunday, August 11, 2024 (9:00 am IST) and ends on Tuesday, August 13, 2024 (5:00 pm IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL, for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by them as on the cut-off date which is Wednesday, August 07, 2024. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, August 07, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting.

A person who is not a Member as on the cut-off date should accordingly treat the Notice of AGM for information purposes only. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not casted their votes on the Resolutions through e-voting are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to cast vote through remote e-voting system during the AGM.

The Members who have casted their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice has been sent through electronically by the Company, and holds shares as on cut-off date which is Wednesday, August 07, 2024, may obtain the login ID and password for remote e-voting by sending a request to NSDL or Company's RTA. However, if a member is already registered with NSDL for e-voting, then existing user ID and password can be used for voting.

Members, who hold shares in physical form who have not registered their email address with the Company/ Depository can obtain Notice of 39th AGM, Annual Report and/or login details for joining the 39th AGM through VC/OAVM facility including e-voting, by sending scanned copy of the following documents by email to investor@mindacorporation.com

- a) a signed request letter mentioning your name, folio number and complete address;
- b) self-attested scanned copy of the PAN Card; and
- c) self-attested scanned copy of any document (such as Driving Licence, Bank Statement, Election Identity Card, Passport, AADHAR Card) in support of the address of the Member as registered with the Company.

Members holding shares in demat form are requested to update their email address/Electronic Bank Mandate with their Depository.

The Scrutinizer shall immediately after the conclusion of the voting at the 39th AGM, first download the votes cast at the AGM, thereafter unblock the votes casted through remote e-voting and shall make a Consolidated Scrutinizer's Report of the votes casted in favour or against, if any, and to submit the same to the Chairman of the AGM or a person authorized by him within 2 (two) working days or 3 (three) days, whichever is earlier from the conclusion of the AGM.

The Results shall be declared forthwith after the submission of Consolidated Scrutinizer's Report either by the Chairman of the Company or by any person authorized by him in writing.

The detailed procedure for obtaining User id & Password is provided in the notice of AGM.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms Pallavi Mhahre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email id - evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at telephone nos.:- +91 022 24997000, +91 022 48867000, who will also address the grievances connected with voting by electronic means.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, August 08, 2024 to Wednesday, August 14, 2024 (both days inclusive) for the said AGM and for payment of Dividend, if approved at the ensuing AGM.

The dividend on Equity Shares if declared at the meeting, will be credited/ dispatched on or before Thursday, September 12, 2024 to those members whose name shall appear on the Company's Register of Members on Wednesday, August 07, 2024. Payment of dividend will be subject to deduction of tax at source (TDS) at applicable rate. For more details, please refer to the "Communication on TDS on dividend distribution" attached to the notice of 39th AGM.

Minda Corporation Limited Sd/- Pardeep Mann Company Secretary M.No. A-13371 Place: Delhi Date: 24.07.2024

